

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2014 (अग्रहायण 15, 1936)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2014 (AGRAHAYANA 15, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली—110001, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. ए—19012/86/14—यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं. ए—12013/21/(पी.एस./हैडक्वार्टर)/09—यू.आई.डी.ए.आई. दिनांक 20.10.2014, तथा केन्द्रीय साज कल्याण बोर्ड, महिला व बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश सं. एफ.—1/12/87/कार्मिक दिनांक 31.10.2014 के अनुसरण में, श्री पी. चंद्रशेखर ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/— + 4,800/— रु. ग्रेड पे, में 3.11.2014 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

रजनीश झा, उपनिदेशक (स्था.)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 18 नवम्बर 2014

सं. ए—19011/128/14—यू.आई.डी.ए.आई.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 33/7/2014—ई.ओ. (एस. एम—I (21) दिनांक 03.11.2014 द्वारा सूचित केबिनेट की नियुक्ति संबंधी कमेटी की स्वीकृति तथा पोत-परिवहन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. ए—19011/03/2013—स्थापना, दिनांक 10.11.2014 के अनुसरण में, श्री एम.सी. जौहरी, आई.ए.एस. (असम—मेघालय/(1987) ने 37,400—67,000/— (पे बैंड—4) + ग्रेड पे 10,000/— रु. के वेतनमान में, 10.11.2014 (पूर्वाह्न) से

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) में, उपमहानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तेनाती "लेटरल शिफ्ट बेसिस पर" उनकी शेष बची प्रतिनियुक्ति अवधि तक, यानी 18.01.2017 तक या अगले आदेश होने तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस. डी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (स्था.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं. ए-12025 (i) / 1/2007-प्रशा. I (वि.वि.)—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) श्रीमती वीना कोठावले को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर रुपये 37,400—67,000/- के वेतन बैंड-4 और रुपये 8,700/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्रीमती वीना कोठावले को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. ए-12023 / 10 / 2000-प्रशा.-III (वि.वि.)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तों) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री बी. आर. जैन, लेखा सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 09 अगस्त, 2014 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

सं. ए-12023 / 23 / 97-प्रशा.-III (वि.वि.)—आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तों) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार अधिवर्षिता की आयु होने पर, श्री टी. के. शर्मा, न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण दिनांक 18 अगस्त, 2014 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 नवम्बर 2014

सं. I-14012 / 12 / 2014-आई.पी.एस.-4—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के मणिपुर एवं त्रिपुरा संवर्ग के परिवीक्षाधीन अधिकारी, श्री एस. सेल्वानगरथिनम, आई.पी.एस. (एम.टी. : 2010) जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2009 में अहर्ता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा, 2013 में अहर्ता प्राप्त करने के आधार पर, उनके भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर दिनांक 17.12.2014 (अप.) से पुनर्ग्रहणाधिकार के बिना भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

अरविन्द गौड़, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. 14034 / 35 / 2014-राभा (प्रशि.)—श्री राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30 सितम्बर 2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सूरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं. 13017/08/2014-अ.भा.से. (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा श्रीमती कविता सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पीबी : 04) की पंजाब संवर्ग से एजीएमयूट संवर्ग (चंडीगढ़ प्रशासन) में चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सीआईटीसीओ) में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 13017/09/2011-अ.भा.से. (I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और महाराष्ट्र और उत्तराखंड सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. निधि पाण्डेय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम. एच. : 01) की महाराष्ट्र संवर्ग से उत्तराखंड संवर्ग में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में दिनांक 17.06.2014 के बाद दो वर्षों की अवधि हेतु विस्तार का अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. 23012/05/2013-अ.भा.से. III—27 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 14015/21/2013-एआईएस द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त डॉ. एस. प्रभाकरन भा. प्र. से. (तमिलनाडु) को अपना नाम श्री एस. प्रभाकरन से बदलकर श्री एस. प्रभाकर करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार सभी सरकारी प्रयोजनों से वे श्री एस. प्रभाकर के रूप में जाने जाएंगे।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2014

अधिसूचना

सं. 06/02/2007-एफबी-II—श्री राजीव महर्षि सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) तथा बहुपक्षीय निवेश गारन्टी एजेंसी (एमआईजीए) के गवर्नर बोर्ड में श्री अरविन्द मायाराम, के स्थान पर 30 अक्टूबर, 2014 से भारत का वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त किया गया है।

बृजेश पांडेय, उप सचिव (एमआई)

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. ए-33025/1/2014-एड.-II—राष्ट्रपति, श्री अरुण कुमार, आईईएस (1993) को 30 सितम्बर, 2014 के अपराहन से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में वेतन बैंड 37,400—67,000/— रुपये (पीबी-4) + 10,000/— रुपये (ग्रेड वेतन) में निदेशक (व्यय प्रबंधन आयोग) के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति आयोग के समापन अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. ए-33025/1/2014-एड.-II—राष्ट्रपति, श्री रवि अरोड़ा को 01 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाहन से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में वेतन बैंड 15,600—39,100/— रुपये (पीबी-3) + 6,600/— रुपये (ग्रेड वेतन) में प्रधान निजी सचिव, व्यय प्रबंधन आयोग के पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति आयोग के समापन अथवा अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 अगस्त 2014

सं. ए-12023/01/2011-प्रशा.- IV(पार्ट)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री डी. आर. देशमुख, अध्यक्ष की पदावधि 06 सितम्बर, 2014 से छः महीने की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के गठन तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाती है।

नवनीत चौहान, निदेशक

सं. ए-12023/01/2011-प्रशा.- IV(पार्ट)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, सदस्य (न्यायिक) की पदावधि 21 अगस्त, 2014 से छः महीने की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के गठन तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाती है।

नवनीत चौहान, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110107, दिनांक 10 नवम्बर 2014

सं. 5(5)/2014-स्था.—श्री राकेश सिंह, आईएएस (पीबी : 78) ने सचिव (इस्पात) के रूप में दिनांक 01 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है उनका सरकारी और आवासीय पता निम्नवत है :—

सरकारी पता

कमरा नं. 291, उद्योग भवन,

नई दिल्ली-110107

दूरभाष नं. 011-23063489/23063912

आवासीय पता

75, न्यू मोती बाग,

नई दिल्ली-110027

दूरभाष नं. 011-24106844

एच. के. वधवा, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/238/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री सिंह वीर प्रताप, उप निदेशक (लागत) को लोक उद्यम विभाग, भारी और लोक उद्यम मंत्रालय में वेतनमान 15,600—39,100/- रुपये के साथ ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये में संयुक्त निदेशक (लागत) (पदोन्नति होने पर) के रूप में दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

ज्योति माथुर, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2014

सं. ए-11013/2/2014-स्था. 1—राष्ट्रपति, श्री संजीव हंस, भा.प्रशा. सेवा (बिहार : 1997) को 11 जुलाई, 2014 के पूर्वाह्न से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर पे-बैंड 4 (रु. 37,400—67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/-) के वेतनमान में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा उनके द्वारा मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्यभार छोड़े जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 सितम्बर 2014

सं. ए-11013/2/2014-ई-1—राष्ट्रपति द्वारा बिहार विधान परिषद्, पटना में सहायक श्री कमल कुमार मिश्रा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के सहायक निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड-2 (9,300/-रुपये से 34,800/- रुपये + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये) में दिनांक 25 अगस्त, 2014 से मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा उनके द्वारा मंत्री जी के सहायक निजी सचिव का पदभार छोड़े जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 2014

सं. ए-11013/2/2014-ई-1—राष्ट्रपति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री ओम प्रकाश सिंह को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) के सहायक निजी सचिव के पद पर वेतन बैंड-2 (9,300/-रुपये से 34,800/- रुपये + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये) में दिनांक 29 अगस्त, 2014 से मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा उनके द्वारा मंत्री जी के सहायक निजी सचिव का पदभार छोड़े जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 नवम्बर 2014

सं. एस एम 01/04/2011—अधिसूचना संख्या 01/04/2011 दिनांक 26 सितम्बर 2013 को स्थगित करते हुए, राष्ट्रपति भारत भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निम्नलिखित सैन्य अधिकारियों को वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- (संशोधित वेतन बैंड-3 रु. 15,600-39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) में उनके नाम के सामने दी गई तिथि से नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	अधिकारी के नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	मेजर सिद्धार्थ शेखावत	23.08.2012
2.	मेजर सुमित कुमार द्विवेदी	23.08.2012
3.	मेजर ताहिर मुस्तफा	23.08.2012
4.	मेजर पवन कुमार पाण्डे	23.08.2012
5.	मेजर विवेक मलिक	23.08.2012
6.	मेजर अजय कुमार	23.08.2012
7.	मेजर राकेश सिंह	23.08.2012
8.	मेजर अरिन्दम गुप्ता	23.08.2012
9.	मेजर सत्येन्द्र सिंह	30.08.2012
10.	मेजर सुमन कुमार सरकार	27.08.2012

लता गोपकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अगस्त 2014

सं. 17013/22/2013-आईएफएस-II—भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने महाराष्ट्र संवर्ग के राज्य वन सेवा से भारतीय वन

सेवा में पदोन्नति के लिए वर्ष 2012 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं:—

चयन सूची-2012

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.*	वी. बी. ठाकरे	26.05.1960
2.	एस. बी. बाड़वे	04.02.1959
3.	पी. जे. लोंकर	08.03.1963
4.	वी. बी. सूर्यवंशी	12.06.1958
5.	एस. एम. गूजर	03.06.1963
6.	आर. एम. नायकदे	05.05.1963
7.	डी. एम. भट्ट	28.07.1959

*क्रम सं. 1 का नाम उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाईयों में से निकासी और राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है।

एस. डी. तिवारी, अवर सचिव

दिनांक 28 अगस्त 2014

सं. 17013/11/2013-आईएफएस-II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित, भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए, नागालैंड राज्य वन सेवा के निम्नलिखित 2 (दो) अधिकारियों को वर्ष 2012 की चयन सूची में उनके नाम शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का नागालैंड संवर्ग आवंटित करते हैं :—

चयन सूची वर्ष-2012

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	के. केरोलिन अंगामी (अनु. जनजाति)	01.03.1959
2.	के. हुकातो चिशी (अनु. जनजाति)	20.01.1974

एस. डी. तिवारी, अवर सचिव

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

सं. 15-30/2014-एनटीसीए—राष्ट्रपति, राजस्थान संवर्ग के भारतीय वन सेवा, 1986 बैच के अधिकारी श्री पी. एस. सोमशेखर को 15 अक्टूबर, 2014 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, बैंगलोर में मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर, वन महानिरीक्षक के पद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

संजय कुमार, सहायक वन महानिरीक्षक (रा.व्या.सं.प्रा.)

दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. 15-30/2014-एनटीसीए—राष्ट्रपति, ओडिशा संवर्ग के भारतीय वन सेवा, 1986 बैच के अधिकारी श्री डॉ. देवव्रत स्वेन को 20 अक्टूबर, 2014 से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर में मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर, वन महानिरीक्षक के पद पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

संजय कुमार, सहायक वन महानिरीक्षक (रा.व्या.सं.प्रा.)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं. 12023-08/2013-स्थापना-2—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, डॉ. एस. के. मल्होत्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियमित सहायक महानिदेशक (बागवानी विज्ञान-2) को वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये के साथ 37,400—67,000/- रुपये के वेतनमान में कृषि एवं सहकारिता विभाग में बागवानी आयुक्त, (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संवीदा) आधार पर दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 पूर्वाह्न से पांच वर्षों तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

सं. 38011-02/2014-स्थापना-2— कृषि एवं सहकारिता विभाग में रुपये 15,600—39,100/-, पी.बी.-3, ग्रेड वेतन रुपये 7,600/- के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री मोहन सिंह, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 2014 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2014

सं. ए-12024/2/2014 स्था.- III—राष्ट्रपति, श्रीमती इंदु आहलुवालिया को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.09.2014 के का.ज्ञा.सं. 04/08/2013-सीएस- II(ए) (पार्ट-I) द्वारा वर्ष 2012 (विस्तारित) की निजी सचिव की सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के पश्चात दिनांक 16.09.2014 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के काडर यूनिट में ग्रेड वेतन 4,800/- के साथ पे बैंड 9,300—34,800/- रु. (पीबी-2) में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं. 5-13/2012-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/7/2014-ईओ (एसएम I) दिनांक 23 सितम्बर, 2014 के अनुसरण में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव, श्री ए. बी. जोशी (आईपीओएस : 1979), को उनके पूर्व संप्रत्यावर्तन पर 25 सितम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से उनके मूल संवर्ग अर्थात् डाक विभाग के लिए कार्यमुक्त करते हैं।

एस. आर. मीणा, उप सचिव

दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं. 4-6/2013-प्रशासन—महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्रीमती तारावती चोपड़ा, सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48(1)(क) के अंतर्गत स्वैच्छिक आधार पर उनके सेवानिवृत्ति के विकल्प के परिणामस्वरूप, दिनांक 30.09.2014 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

एस. आर. मीणा, उप सचिव

दिनांक 13 अक्टूबर 2014

सं. 5-5/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.09.2014 के आदेश सं. 5/11/2014-सीएस I (यू) के द्वारा मनोनीत होने के परिणामस्वरूप, श्री सुनील कुमार चौधरी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक नियमित, अनुभाग अधिकारी को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर दिनांक 31.05.2015 तक की अवधि के लिए अथवा ये पद नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 01.10.2014 (पूर्वाह्न) से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 6,600/- रुपये के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपये) में सीएसएस का ग्रेड-I (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति उपरोक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन है।

एस. आर. मीणा, उप सचिव

दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. 22-39/2011-प्रशासन—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 07.10.2014 के आदेश सं. 13016/3/2014-आईईएस के अनुसरण में, सुश्री अश्विनी लाल, आईईएस (2004) को दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 7,600/- रुपये ग्रेड पे के साथ 15,600—39,100/- रुपये के पे बैंड (पीबी-3) में संयुक्त निदेशक नियुक्त करते हैं।

एस. आर. मीणा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2014

सं. 3-2/2010-प्रशासन—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.09.2014 के का.ज्ञा.सं. 4/43/2014-ईओ (एस.एम.-I) के द्वारा मंत्रिमंडल नियुक्ति संबंधी समिति के निर्णय के अनुसरण में इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री के. श्रीनिवासुलू, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एसके : 94) को विस्तारित उपशमन अवधि की शर्त लगाते हुए 17.09.2014 (अपराह्न) से उनके मूल काडर में प्रत्यार्पित किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 19 सितम्बर 2014

सं. 2-2/2014-प्रशासन—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 22 अगस्त, 2014 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक आशोधन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.09.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/20/2014-सीएस-II (सी) के अनुसरण में, श्री आनंद लाल चौधरी को 6,600/- रुपये के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपये) में 28.05.2014 (पूर्वाह्न) से महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री मेनका संजय गांधी) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. 3-2/2010-प्रशासन—राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के आदेश सं. 33/5/2014-ईओ (एसएम- I) (37) के अनुसरण में, सुश्री मनीषा प्रसाद पवार, भा.प्र.से. (यूके : 1990) को पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से 10,000/- रुपये ग्रेड पे के साथ 37,400—67,700/- रुपये के पे बैंड (पीबी-4) में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. 3-2/2010-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.2014 के आदेश सं. 33/5/2014-ईओ (एसएम-I) (45) के अनुसरण में, श्री आई.एस. चहल, भा.प्र.से. (एमएच : 89) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत उनके पांच वर्ष की प्रति नियुक्ति के शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 04.03.2018 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाह्न से 10,000/- रुपये ग्रेड पे के साथ पे बैंड 37,400—67,000/- रुपये (पीबी-4) में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

सुनील कुमार चौधरी, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. 12034/2/2014-स्था.—राष्ट्रपति, श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.एस.) (ओआर : 1998) को निदेशक के स्तर पर दिनांक 26.09.2014 (अपराह्न) से वेतन बैंड-4 (37,400—67,000/-) + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. (वेतन बैंड-4) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) के व्यक्तिगत स्टाफ में निजी सचिव के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। इस मंत्रालय में उनकी यह नियुक्ति को-टर्मिनस आधार पर अथवा मंत्री के निजी सचिव के रूप में उनके कार्य करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

राजेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. 11013/1/2014—स्थापना—राष्ट्रपति श्री एस एस मोदी, उप सचिव को वेतन बैंड 15,600—39,100/— जमा ग्रेड वेतन 7,600/— (पीबी-3) में माननीय जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) के व्यक्तिगत स्टॉफ में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उप सचिव स्तर पर चार वर्षों की अवधि के लिए मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर या मंत्री के साथ विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 27.05.2014 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

सं. 01 (125)/2014—सीसीए—दिनांक 25 जनवरी, 2006 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 10/3/2004—सीएस-II (खण्ड-I) के अनुसरण में प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के श्री के. जगदीश बाबू, निजी सचिव को दिनांक 01.01.2014 से 5,400/— रुपये प्रतिमाह के ग्रेड वेतन सहित 15,600—39,100/— रुपये के वेतन बैंड-3 में अकृत्यक वेतनमान दिया जाता है।

श्री के. जगदीश बाबू, निजी सचिव दिनांक 24.11.2009 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/3/2004—सीएस-II (खण्ड) के अनुसरण में वेतन निर्धारण के पात्र होंगे।

हर्षप्रभा अग्रवाल, सहायक नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2014

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—सुश्री सुहास कुमार, सलाहकार (मालभाड़ा विपणन) रेलवे बोर्ड 04.11.2014 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्रीमती रश्मि कपूर, अपर सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड 29.10.2014 पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—श्री कन्हैया लाल पांडे, अपर सदस्य (पर्यटन एवं खानपान), रेलवे बोर्ड 30.10.2014 के पूर्वाह्न से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2007/10/4—रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2014 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :—

- | | | |
|-----|--------------------------|----------------|
| i) | श्री सत्यवीर श्रीवास्तव, | उप निदेशक |
| ii) | श्री पॉल बर्वा | अवर सचिव |
| ii) | श्री दीपांकर सेनगुप्ता, | अनुभाग अधिकारी |

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 18 नवम्बर 2014

सं. ईआरबी-I/2007/2/58—राष्ट्रपति जी, श्री महेश मंगल, एचएजी/आईआरएसएसई, सलाहकार (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रुपये 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 14.11.2014 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (दूरसंचार), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2014

सं.ए-19011/16/2010-ई-I—राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के दिनांक 24.12.2013 के कार्यालय आदेश सं. 5/3/2013—रा. भा. (सेवाए) के अनुसरण में, (i) श्री विश्वेश चंद त्रिवेदी और (ii) श्रीमती अरुणेश शर्मा दोनों अधिकारियों को उनकी नियमित प्रोन्नति होने पर वेतन बैंड-3, 15,600—39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में उप निदेशक के पद पर दिनांक 24.12.2013 (अपराह्न) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप निदेशक (रा.भा.) के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. ए-12023/01/2014-ई-I—राष्ट्रपति, डॉ. कलाम सिंह रौथन, कनिष्ठ अन्वेषक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, को 9,300—34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 + 4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (समूह 'ख' राजपत्रित) में आर्थिक अधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति होने पर उन्हें 17.07.2014 (पूर्वाह्न) से आर्थिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2014

सं. ए-19011/2/2014-ई-I—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग (आईईएस प्रभाग), वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या पी-4/2014 (फा. सं. 13016/4/2014-आईईएस) दिनांक 19.05.2014 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार जायसवाल को भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV (कनिष्ठ समय वेतनमान) में उनकी पदोन्नति होने पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 15,600—39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 04.06.2014 (अपराह्न) से सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-19012/03/2014-ई-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पत्र संख्या 3/3(1)/2014-एडीटी-3 दिनांक 08.05.2014 के अनुसरण में श्री वीरपाल सिंह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक सविदा आधार पर 9,300—34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 + 4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 17.06.2014 (पूर्वाह्न) से पुस्तकालय सहायक एवं सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2014

सं. ए-19012/2/2013-प्रशा. III—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 15.09.2014 के पत्र संख्या 13016/1/2014-आईईएस के आदेश सं. पी-7/2014 द्वारा, राष्ट्रपति श्री पार्थ प्रतिम मित्रा (आईईएस : 1979) को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 16 सितम्बर, 2014 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 80,000/- रुपये (नियत) के उच्चतम वेतन में प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

जॉर्जकुट्टी टी. एल., अवर सचिव

PLANNING COMMISSION
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 17th November 2014

No. A-19012/86/14-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi letter No. A-12013/21(PS/HQ)/09-UIDAI dated 20.10.2014 and Central Social Welfare Board, Ministry of Women & Child Development, New Delhi Office Order No. F.1-12/87-Pers dated 31.10.2014, Shri P. Chandrasekar has assumed the charge of the post of Private Secretary in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 03.11.2014 (FN) in the pay band of Rs. 9300—34800 + Grade Pay of Rs. 4800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Deputy. Director (Estt)

New Delhi-110001, the 18th November 2014

No. A-19011/128/14-UIDAI—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O. M. No. 33/7/2014-EO(SM-I) (21) dated 03.11.2014 and Ministry of Shipping Office Order No. A-19011/03/2012-Estt dated 10.11.2014, Shri M. C. Jauhari, IAS (AM: 1987) has assumed the charge of Deputy Director General in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f. 10.11.2014 (F/N) in the Pay band of Rs. 37400—67000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- on lateral shift basis for the balance period of his deputation tenure, i.e., up to 18.01.2017 or until further orders, whichever is earlier.

S. D. SHARMA, Assistant Director General (Estt)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 30th October 2014

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Ms. Veena Kothavale, Deputy Legislative Counsel (Grade-III of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade-II of Indian Legal Service) in the Pay Band-4 of Rs. 37400—67000/- plus Grade Pay of Rs. 8700/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 28th October, 2014 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on Ms. Veena Kothavale any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the ad hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

B. M. SHARMA, Deputy Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th November 2014

No. A-12023/10/2000-Admn.III(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri B. R. Jain, retired from Government service as Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 9th August, 2014 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

No. A-12023/23/97-Admn.III(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri T. K. Sharma, retired from Government service as Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal, with effect from the afternoon of 18th August, 2014 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th November 2014

No. I-14012/12/2014-IPS.IV—Consequent upon his selection for appointment to Indian Police Service on the basis of qualifying the Civil Services Examination, 2013 the President is pleased to accept the technical resignation of Shri S. Selvanagarathinam, IPS (MT: 2010) who was appointed to the Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2009, from the Indian Police Service with effect from 17.12.2014 (AN) without lien.

ARVIND GAUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 14th November 2014

No. 14034/35/2014-OL(Trg.)—Shri Rajender Singh, Deputy Director (Hindi Teaching Scheme), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30th September, 2014 (A.N.).

SURAJ BHAN, Director (Training)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th October 2014

No. 13017/08/2014-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Punjab and the Ministry of Home Affairs the Central Govt. hereby accords approval for the proposal for Inter cadre deputation of Smt. Kavita Singh, IAS (PB: 04) from Punjab cadre to AGMUT Cadre (Chandigarh Admin.) for appointment as Managing Director, Chandigarh Industrial & Tourism Development Corporation Limited (CITCO), for a period of three years.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 20th October 2014

No. 13017/09/2011-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Maharashtra and Uttarakhand the Central Govt. hereby accords approval for extension of Inter cadre deputation of Dr. Nidhi Pandey, IAS (MH: 01) from Maharashtra cadre to Uttarakhand Cadre for a period of two years beyond 17.06.2014.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 13th November 2014

No. 23012/05/2013-AIS-III—Dr. S. Prabakaran, IAS (TN) appointed to the Indian Administrative Service vide Notification No. 14015/21/2013-AIS (1)-B dated 27th December, 2013 has been permitted to change his name from Dr. S. Prabakaran to Dr. S. Prabhakar. He will accordingly be recognised as Dr. S. Prabhakar for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 14th November 2014

No. 06/02/2007-FB-II—Shri Rajiv Mehrishi, Finance Secretary, Ministry of Finance has been appointed as India's Alternate Governor on the Board of Governors of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) with effect from 30th October, 2014 vice Shri Arvind Mayaram.

BRIJESH PANDEY, Dy. Secretary (MI)

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 27th October 2014

No. A-33025/1/2014-Ad.II—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar, IES (1993), as Director (Expenditure Management Commission) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000 (PB-4) + Rs. 10000/- (Grade Pay) with effect from the afternoon of the 30th September, 2014. His appointment will be co-terminus with the Commission or until further order, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

The 21st November 2014

No. A-33025/1/2014-Ad.II—The President is pleased to appoint Shri Ravi Arora, as PPS, Expenditure Management Commission (EMC) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band of Rs. 15600—39100 (PB-3) + Rs. 6600/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of the 1st October, 2014. His appointment will be co-terminus with the Commission or until further order, whichever is earlier.

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 19th August 2014

No. A-12023/01/2011-Ad.IV (pt)—In exercise of the powers conferred by the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2014, the Central Government hereby extends the tenure of Justice (Retd.) D. R. Deshmukh, Chairman for a period of six months w.e.f. 6th September, 2014 or until the National Company Law Tribunal (NCLT) is constituted or until further orders, whichever is earliest.

NAVNEET CHOUHAN, Director

No. A-12023/01/2011-Ad.IV (pt)—In exercise of the powers conferred by the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2014, the Central Government hereby extends the tenure of Shri Ashok Kumar Tripathi, Member (Judicial) for a period of six months w.e.f. 21st August, 2014 or until the National Company Law Tribunal (NCLT) is constituted or until further orders, whichever is earliest.

NAVNEET CHOUHAN, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110107, the 10th November 2014

No. 5(5)/2014-Estt.—Shri Rakesh Singh, IAS (PB: 78) has assumed the charge of Secretary (Steel) with effect from 1st September, 2014 (FN). His official and residential addresses are as under:—

OFFICIAL ADDRESS

Room No. 291, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.
Tele No. 011-23063489/23063912

RESIDENTIAL ADDRESS

75, New Moti Bagh,
New Delhi-110027.
Tele No. 011-24106844.

H. K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 3rd November 2014

No. A-19011/238/2014-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Singh Veer Pratap, Deputy Director (Cost) as Joint Director (Cost) (on promotion) in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries

and Public Enterprises in the Pay Scale of Rs. 15600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- w.e.f. forenoon of 21st October, 2014.

JYOTI MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 14th July 2014

No. A-11013/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Hans, IAS (BH: 1997) as Private Secretary to the Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Ram Vilas Paswan) at the level of Director in PB-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8700/-) with effect from the forenoon of 11th July, 2014 for a period of 5 years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 2nd September 2014

No. A-11013/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Kamal Kumar Mishra, Assistant in the Bihar Legislative Council, Patna as Assistant Private Secretary to the Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Ram Vilas Paswan) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4800/-) with effect from the forenoon of 25th August, 2014 for a period co-terminus with the office of the Minister or till he ceases to function as Assistant Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 11th September 2014

No. A-11013/2/2014-E-I—The President is pleased to appoint Shri Om Prakash Singh, Section Officer of CSS cadre of Ministry of Human Resource Development as Assistant Private Secretary to the Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Shri Ram Vilas Paswan) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4800/-) with effect from the forenoon of 29th August, 2014 for a period co-terminus with the office of the Minister or till he ceases to function as Assistant Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 19th November 2014

No. SM/01/04/2011—In supersession of Notification No. 01/04/2011 dated 26th September 2013 the President is pleased to appoint following Army Officers as Deputy Superintending Surveyor in Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 (Revised PB-03 of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 5,400/-) in Survey of India with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of Officers	Date of Appointment
1	2	3
1.	Major Siddarth Shekhawat	23.08.2012
2.	Major Sumit Kumar Dwivedi	23.08.2012
3.	Major Tahir Mustafa	23.08.2012
4.	Major Pawan Kumar Pandey	23.08.2012
5.	Major Vivek Malik	23.08.2012
6.	Major Ajay Kumar	23.08.2012

1	2	3
7.	Major Rakesh Singh	23.08.2012
8.	Major Arindam Gupta	23.08.2012
9.	Major Satyendar Singh	30.08.2012
10.	Major Suman Kumar Sarkar	27.08.2012

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE

New Delhi-110003, the 13th August 2014

No. 17013/22/2013-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Maharashtra Cadre to the Indian Forest Service for the Select List year 2012 containing the names of the following officers of the State Forest Service of Maharashtra towards filling up of promotion quota vacancies available in Maharashtra Cadre of the Indian Forest Service.

Select List 2012

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
1.*	V. B. Thakre	26.05.1960
2.	S. B. Badve	04.02.1959
3.	P. J. Lonkar	08.03.1963
4.	V. B. Suryavanshi	12.06.1958
5.	S. M. Gujar	03.06.1963
6.	R. M. Naikade	05.05.1963
7.	D. M. Bhatt	28.07.1959

* The name at S. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

S. D. TIWARI, Under Secy.

The 28th August 2014

No. 17013/11/2013-IFS.II—In exercise of the provisions conferred by Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulations (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, The President is pleased to appoint with immediate effect the following 2 (two) officers of the State Forest Service of Nagaland to the Indian Forest Service on the basis of inclusion of their names in the Select List for the year 2012 and to allocate them to Nagaland Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rules 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

Select List 2012

Sl. No.	Name of the Officers	Date of Birth
1.	K. Caroline Angami (ST)	01.03.1959
2.	K. Hukato Chishi (ST)	20.01.1974

S. D. TIWARI, Under Secy.

NATIONAL TIGER CONSERVATION AUTHORITY

New Delhi-110003, the 17th October 2014

No. 15-30/2014-NTCA—The President is pleased to appoint Shri P. S. Somashekar, an officer belonging to 1986 batch of Indian Forest Service, Rajasthan Cadre, to the post of Inspector General of Forests, in the National Tiger Conservation

Authority, Regional Office, Bangalore, on deputation under Central Staffing Scheme of the Ministry w.e.f. the forenoon of 15th October, 2014 for a period of 5 years or till superannuation or till further orders whichever is earlier.

SANJAY KUMAR, Assistant Inspector General (NTCA)

The 13th November 2014

No. 15-35/2014-NTCA—The President is pleased to appoint Dr. Debabrata Swain, an officer belonging to 1984 batch of Indian Forest Service, Odisha Cadre, to the post of Inspector General of Forests, in the National Tiger Conservation Authority, Regional Office, Nagpur, on deputation under Central Staffing Scheme of the Ministry w.e.f. the forenoon of 20th October, 2014 for a period of 5 years or till superannuation or till further orders whichever is earlier.

SANJAY KUMAR, Assistant Inspector General (NTCA)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 22nd October 2014

No. 12023/08/2013-E.II—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. S. K. Malhotra, Assistant Director General (Horticulture Science-2), ICAR, New Delhi to the post of Horticulture Commissioner in the pay scale of PB-4, Rs. 37400—67000 + Grade Pay of Rs. 10000/- (G.C.S. Group 'A' Gazetted) in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation (short-term contract) basis for a period of five years with effect from the forenoon of 20th October 2014 or until further orders, whichever is earlier.

K. SANJAYAN, Under Secy.

No. 38011/02/2014-E.II—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri Mohan Singh, Joint Director, (Official Language) in the pay scale of 15600—39100/-, PB-3, Grade Pay Rs. 7600/- in the Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government service w.e.f. from the afternoon of 31st October, 2014.

K. SANJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 13th October 2014

No. A-12024/2/2014-E.III—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Private Secretaries for the year 2012 (extended) vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/8/2013-CS.II (A) (Part-I) dated 16.09.2014, the President is pleased to appoint Smt. Indu Ahluwalia of Department of Higher Education as Private Secretary on regular basis in the Pay Band of Rs. 9300—34800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4800/- in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 16.09.2014 (FN).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th September 2014

No. 5-13/2012-Admn.—In pursuance of DoPT's Order No. 4/7/2014-EO(SM.I) dated 23rd September, 2014, the President is pleased to relieve Shri A. B. Joshi (IPoS: 1979), Additional Secretary in the Ministry of Women and Child Development with effect from 25th September, 2014 (FN) upon his premature repatriation to his parent cadre i.e. Department of Posts.

S. R. MEENA, Dy. Secy.

The 26th September 2014

No. 4-6/2013-Admn.—Consequent upon her option to retire on voluntary basis under Rule 48 (1) (a) of CCS (Pension) Rules, 1972, Smt. Tarawanti Chopra, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stands retired from Government service with effect from 30.09.2014 (forenoon).

S. R. MEENA, Dy. Secy.

The 13th October 2014

No. 5-5/2014-Admn—Consequent on being nominated vide DoPT's order No. 5/11/2014-CS.I(U) dated 15.09.2014, the President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Choudhary, a regular Section Officer of Central Secretariat Service to Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Band-3 (Rs. 15600—39100) with Grade Pay of Rs. 6600/- in the Ministry of Women and Child Development purely on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier with effect from 01.10.2014 (FN).

2. The appointment is subject to the terms and conditions in the order mentioned above.

S. R. MEENA, Dy. Secy.

The 14th October 2014

No. 22-39/2011-Admn—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/3/2014-IES dated 07.10.2014, the President is pleased to appoint Ms. Ashwini Lal, IES (2004) as Joint Director in the pay band of Rs. 15600—39100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 7600/- in Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 08th October, 2014 till further orders.

S. R. MEENA, Dy. Secy.

New Delhi, the 17th September 2014

No. 3-2/2010-Admn—In pursuance of the decision of Appointments Committee of the Cabinet vide DP&T's O. M. No. 4/43/2014-EO(SM-I) dated 12.09.2014, Shri K. Sreenivasulu, IAS (SK: 94), Joint Secretary in this Ministry stands repatriated to his parent cadre w.e.f. 17.09.2014 (AN), with the imposition of extended cooling-off condition.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 19th September 2014

No. 2-2/2014-Admn—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 22nd August, 2014 and in pursuance of DoPT's OM No. 8/20/2014-CS-II(C) dated 12.09.2014, the President is pleased to appoint Shri Anand Lal Chaudhary as Additional Private Secretary to Minister of Women and Child Development (Ms. Maneka Sanjay Gandhi) w.e.f. 28th May, 2014 (FN) in PB-3 (Rs. 15600—39100/-) with Grade Pay of Rs. 6600/-.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 14th October 2014

No. 3-2/2010-Admn—In pursuance of DoPT's Order No. 33/5/2014-EO(SM.I)(37) dated 23.09.2014, the President is pleased to appoint Ms. Manisha Prasad Panwar, IAS (UK: 1990) as Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development, in the pay band of Rs. 37400—67000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10000/- with effect from the forenoon of 08th October, 2014 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

SUNIL KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

The 15th October 2014

No. 3-2/2010-Admn—In pursuance of DoPT's Order No. 33/5/2014-EO(SM-I)(45) dated 23.09.2014, the President is pleased to appoint Shri I. S. Chahal, IAS (MH: 89) as Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development, in the pay band of Rs. 37400—67000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10000/- with effect from the forenoon of 13th October, 2014 for the balance period of his five year deputation under the Central Staffing Scheme, i.e. upto 04.03.2018 or until further orders, whichever is earlier.

SUNIL KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th September 2014

No. 12034/2/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar Vashishth, IAS (OR: 1998) as Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister for Tribal Affairs (Shri Jual Oram) in the Pay Band of Rs. 37400—67000/- plus grade pay of Rs. 8,700/- (PB-4) w.e.f. 26.09.2014 (AN) at Director Level for a period of 5 years on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.

The 15th October 2014

No. 11013/1/2014-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Modi, Deputy Secretary as Officer on Special Duty in the personal staff of Hon'ble Minister for Tribal Affairs (Shri Jual Oram) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus grade pay of Rs. 7,600/- (PB-3) w.e.f. 27.05.2014 (FN) at Deputy Secretary Level for a period of 4 years on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

RAJENDRA PRASAD, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY)

OFFICE OF CONTROLLER OF CERTIFYING AUTHORITIES

New Delhi-110003, the 15th October 2014

No. 01 (125)/2014-CCA—In pursuance of DOP&T's Order No. 10/3/2004-CS.II (Pt.I) dated 25th January 2006, Shri K. Jagadeesh Babu, Private Secretary of Office of Controller of Certifying Authorities, Department of Electronics & Information Technology is placed in the Non-Functional Scale of Pay Band-3: Rs. 15600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- p.m. w.e.f. 01.01.2014.

2. Shri K. Jagadeesh Babu, PS is entitled for fixation of pay in pursuance of DOP&T OM No. 10/3/2004-CS-II (Pt.) dated 24.11.2009.

HARSHPRABHA AGGARWAL, Asstt. Controller (Technology)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th November 2014

No. ERB-I/2007/10/4—Ms. Suhas Kumar, Adviser (Freight Marketing), Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 04.11.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Smt. Rashmi Kapoor, Additional Member (Finance), Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 29.10.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Kanhaya Lal Pandey, Additional Member (T&C), Railway Board, retired voluntarily from service with effect from the forenoon of 30.10.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No. ERB-I/2007/10/4—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.10.2014:—

- | | | |
|-------|---------------------------|------------------|
| (i) | Shri Satyavir Srivastava, | Deputy Director. |
| (ii) | Shri Paul Barwa, | Under Secretary. |
| (iii) | Shri Dipankar Sengupta, | Section Officer. |

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 18th November 2014

No. ERB-I/2014/2/58—The President is pleased to appoint Shri Mahesh Mangal, HAG/IRSSE, Adviser (Telecommunication), Railway Board as Additional Member (Telecommunication), Railway Board on promotion to grade Rs. 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 14.11.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 14th March 2014

No. A-19011/16/2010-E-I—In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 5/3/2013-OL (Services) dated 24.12.2013, the President is pleased to appoint both the officers (i) Shri Vishwesh Chand Trivedi & (ii) Smt. Avnesh Sharma, as Deputy Director (OL) in the Ministry of Road Transport & Highways on their regular promotion to the post of Deputy Director (OL) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6600/- on regular basis w.e.f. 24.12.2013 (Afternoon).

H. R. MEENA, Under Secy.

The 22nd July 2014

No. A-12023/01/2014-E-I—On his regular promotion to the post of Economic Officer in the Pay Band-2 Rs. 9300—34800/- plus Grade Pay Rs. 4600/- (Group 'B' Gazetted) the President is pleased to appoint Dr. Kalam Singh Rauthan, Junior Investigator in the Ministry of Road Transport & Highways as Economic Officer w.e.f. 17.07.2014 (Forenoon).

H. R. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2014

No. A-19011/2/2014-E-I—In pursuance of Department of Economic Affairs (IES division), Ministry of Finance Order No. P-4/2014 F. No. 13016/4/2014-IES dated 19.05.2014, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Jaiswal, as Assistant Director in the Ministry of Road Transport & Highways on his promotion to Grade-IV (Junior Time Scale) of Indian Economic Service in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5400/- w.e.f. 04.06.2014 (Afternoon).

D. R. SHARMA, Under Secy.

No. A-19012/03/2014-E-I—In pursuance of UPSC's letter No. 3/3(1)/2014-ADT-3 dated 8th May, 2014, the President is pleased to appoint Shri Virpal Singh to the post of Assistant Library & Information Officer in the pay scale of PB-2 Rs. 9300—34800/- + Grade Pay Rs. 4600/- on deputation short term contract basis in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 17.06.2014 (Forenoon).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 24th November 2014

No. A-19012/2/2013-Admn.III—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. P-7/2014 vide No. 13016/1/2014-IES dated 15.09.2014, the President is pleased to appoint Shri Partha Pratim Mitra (IES: 1979) to the post of Principal Labour and Employment Adviser in the Apex Scale of Rs. 80,000 (fixed) in Ministry of Labour and Employment with effect from the forenoon of 16th September 2014 and until further orders.

GEORGEKUTTY T. L., Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in